

# नकली नमक बेच रहे दो दुकानदार गिरफ्तार



वाराणसी ब्यूरो

Updated Sun, 13 Mar 2022 11:29 PM IST



नंदगंज। क्षेत्र के कठई पहलवानपुर और कुसम्ही खुर्द चट्टी पर नकली नमक बेचने के आरोप में पुलिस ने रविवार को दो दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। दोनों जगहों से 50-50 किलो नकली नमक बरामद किया गया।

एक कंपनी के प्रतिनिधि देवेन्द्र प्रताप सिंह को सूचना मिली कि कठई पहलवानपुर और कुसम्ही खुर्द चट्टी पर उनकी कंपनी के पैकेट में नकली नमक भर कर बेचा जा रहा है। उन्होंने इसकी सूचना थानाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह को दी। थानाध्यक्ष के निर्देश पर चौकी प्रभारी रजादी चौकी इंचार्ज सुरेंद्र नाथ सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कठई पहलवानपुर चट्टी स्थित एक दुकान से 50 किलो की और कुसम्ही खुर्द चट्टी स्थित एक दुकान से 50 किलो नकली नमक किया। कंपनी के प्रतिनिधि ने बरामद नमक को नकली बताया। उसके बाद पुलिस दोनों दुकानदारों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। थानाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि दुकानदार रामदरश और नीरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

Source: <https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/ghazipur/two-shopkeepers-selling-fake-salt-arrested-ghazipur-news-vns6431017131>